



थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा हत्या का वांछित आरोपी/15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित
अभियुक्त आकाश गिरफ्तार

अवगत कराना है उधम सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम टांडामाईदास थाना नगीना देहात, जनपद बिजनौर द्वारा थाने पर तहरीर दी कि दिनांक 04.11.2021 को समय करीब 20:00 बजे उसी के गांव निवासी आकाश पुत्र डबले उनके छप्पर के नजदीक आकर पटाखे छुड़ाने लगा तो 1.कपिल पुत्र रूपचंद व 2.रूपचन्द (50 वर्ष) पुत्र किशन सिंह ने आकाश उपरोक्त को पटाखे छुड़ाने से मना किया तो आकाश व उसके अन्य दो साथी 1.रीनू व अनु पुत्रगण शिशु द्वारा कपिल व रूपचन्द उपरोक्त के साथ मारपीट तथा गाली-गलौच की गयी, जिसमें रीनू ने रूपचन्द के सिर में डंडा मार दिया जिससे रूपचंद (उम्र 50 वर्ष) की सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 331/2021 धारा 304/504/506 भादवि बनाम 1.आकाश 2.रीनू तथा 3.अनु उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना नगीना देहात पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा **अभियुक्त रीनू तथा अनु को दिनांक 05.11.2021 को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।** अभियुक्त आकाश की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसके क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.11.2021 को मुखबिर की सूचना पर अभि0 आकाश उपरोक्त को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आकाश पुत्र डबले नि0 ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-1.उ0नि0 श्री संजय त्यागी 2.कां 1560 महिपाल
3.कां 211 अमित कुमार 4.कां 1384 अमित कुमार



थाना नूरपुर: आज दिनांक 07.11.2021 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान कस्बा नूरपुर में संगम बैंकट हॉल के पास हैदर पुत्र अतीक निवासी मौ0 मोहम्मद नगर कस्बा व थाना नूरपुर तथा एक बाल अपचारी को 40 किलोग्राम गौवंशीय मीट के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 421 / 21 धारा 3/5क/8 गोवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।



थाना नूरपुर: आज दिनांक 07.11.2021 थाना नूरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शमशाद पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला तेलीपुरा कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को अमरोहा न्यायालय के वारंट वाद संख्या 1995/17 धारा 376डी/506 आईपीसी चलानी थाना बछरायूं जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।



थाना शेरकोट:- आज दिनांक 07/11/2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुरेश पुत्र रमेश निवासी मोहल्ला फतेहनगर कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को वाद संख्या 1160/19 धारा 323, 325, 504,506 आईपीसी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।



थाना बढापुर:- आज दिनांक 07.11.2021 के थाना बढापुर पुलिस द्वारा दो नफर अभियुक्त सलमान व हाशिम पुत्र गण अमीर हसन निवासी मोहल्ला लोदना कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।





बिजनौर पुलिस



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मौ0 फतेहनगर गढी में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना बढापुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

